

राज्य सभा

# संसदीय समाचार

भाग - 2

सं.56561-56564]

बुधवार, 12 अप्रैल, 2017

सं.56561

विधायी अनुभाग

## राज्य सभा का स्थगन

राज्य सभा 12 अप्रैल, 2017 को अनियत तिथि के लिए स्थगित हुई।

सं.56562

समिति समन्वय अनुभाग

## संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 को राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाना

जैसा कि सदस्यों को विदित है कि राज्य सभा ने 11 अप्रैल, 2017 को हुई अपनी बैठक में संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 को राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपे जाने का निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया गया:-

"भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, राज्य सभा के अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिवस तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के अनुदेशों के साथ राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाए, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1. श्री भूपेन्द्र यादव
2. श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल
3. डा. विकास महात्मे
4. श्री राम नारायण डूडी

5. श्री बी. के. हरिप्रसाद
6. श्री मधुसूदन मिस्त्री
7. श्री दिग्विजय सिंह
8. श्री हुसैन दलवाई
9. प्रो. राम गोपाल यादव
10. श्री शरद यादव
11. श्री सुखेन्दु शेखर राय
12. श्री ए. नवनीतकृष्णन
13. श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
14. श्री टी. के. रंगराजन
15. श्री दिलीप कुमार तिर्की
16. श्री सी. एम. रमेश
17. श्री प्रफुल्ल पटेल
18. श्रीमती कानीमोझी
19. श्री अनिल देसाई
20. श्री नरेश गुजराल
21. मीर मोहम्मद फ़ैयाज
22. श्री बिश्वजीत दैमारी
23. श्री राजीव चन्द्रशेखर
24. श्री स्वपन दासगुप्ता
25. श्री राम कुमार कश्यप"

2. राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा के सदस्य श्री भूपेन्द्र यादव को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

## संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार में अभिलेखीय/ऐतिहासिक सामग्री का संग्रह

लोक सभा सचिवालय के संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार में भारत में संसदीय संस्थाओं तथा संविधान के उद्गम, विकास और कार्यकरण से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेखों, ऐतिहासिक दस्तावेजों तथा आलेखों का अर्जन, भंडारण और परिरक्षण किया जाता है। यह महसूस किया गया है कि इन वस्तुओं, जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर का हिस्सा हैं, का संग्रहण, वैज्ञानिक रखरखाव और परिरक्षण किया जाए ताकि भावी पीढ़ी इनका लाभ उठा सके।

सदस्यों से अनुरोध है कि उनके पास उपलब्ध सामग्री यथा, निजी पत्राचार, टिप्पण, आलेख, अभिलेख, पांडुलिपि, भाषण, संस्मरण, डायरी, अवशेष, कलाकृतियां, स्मृति चिह्न, वैयक्तिक चीजें और संकलन, चित्र, फोटो या सांसद और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनके जीवन तथा कार्यकलापों से संबंधित अभिलेखीय/ऐतिहासिक महत्व की किसी अन्य सामग्री के स्थायी परिरक्षण तथा प्रदर्शन हेतु उन्हें **संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार, एफ.बी. 094, संसद ग्रन्थालय भवन (दूरभाष संख्या 23034131, 23034017, फैक्स सं. 23035326)** में जमा कराएं। इन सामग्रियों से संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार समृद्ध होगा और यह शोध कार्य के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आप चाहें तो प्रदान की गई सामग्री, आवश्यक प्रतिलिपियां बनाने के बाद लौटा दी जाएगी। सामग्री की छंटाई तथा इन्हें सूचीबद्ध करने में किसी भी प्रकार की सचिवालयी सहायता लोक सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

सदस्य कृपया इसमें सहयोग दें।

सं.56564

संसदीय सुरक्षा सेवा

**संसदीय सौध स्थित टीकेआर-॥ द्वार (वाहनों एवं पैदल-यात्रियों हेतु) से प्रवेश  
अस्थायी तौर पर बंद किया जाना**

शुक्रवार, 14 अप्रैल, 2017 को डा. बी. आर. अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर, टीकेआर-॥ द्वार (वाहनों एवं पैदल-यात्रियों हेतु) समारोह के दौरान अर्थात् 07.00 बजे से 13.00 बजे तक अस्थायी रूप से बंद रहेगा।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे उस दिन समारोह के दौरान संसद भवन परिसर में आने के लिए अन्य द्वारों अर्थात् लौह द्वार-1 (संसद भवन), लौह द्वार-8 (संसद भवन) तथा टीकेआर-1 (संसदीय सौध) का प्रयोग करें।

माननीय सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है

**शमशेर के. शरीफ,**  
*महासचिव।*